

## प्रेस नोट दिनांक- 06.11.2020

(1). पुलिस लाइन चित्रकूट में तैनात आरक्षी स्व0 श्री कपिल कुमार के शव को पुलिस लाइन्स में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल, श्री प्रकाश स्वरूप अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, श्री रजनीश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर, श्री यतीन्द्रनाथ उमराव सीएफओ0, श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर शोक सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गयी। आरक्षी स्व0 श्री कपिल कुमार के शव को पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी नगर व प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा कन्धा देकर अंतिम भावभीनी विदायी दी गयी।

(2). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 06.11.2020 को यातायात निरीक्षक श्री घनश्याम पाण्डेय एवं यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु शम्भू पेट्रोल, ट्राफिक चौराहा कर्वी, बनकट मण्डी गेट, एलआईसी तिराहा, बेड़ी पुलिया में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट, ओवर स्पीड एवं बिना सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 78 वाहनों से 73600 रुपये पेंडिंग ई-चालान किया गया। इस दौरान वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी।

(3). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 06.11.2020 को प्रभारी यातायात श्री घनश्याम पाण्डेय एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र यादव द्वारा शम्भू पेट्रोल पम्प तिराहे पर परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जीप, टेम्पो एवं ट्रक के ड्राइवरों को एकत्र कर यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया, साथ ही साथ सभी चालकों को बताया गया कि निर्धारित गति से वाहन चलायें, निर्धारित स्थान पर वाहन पार्क करें, अनावश्यक तेज हॉर्न न बजायें, चौराहों पर धीमी गति से चले, ओवरटेकिंग न करें, रात्रि में डीपर एवं टर्निंग लाइट का प्रयोग करें, ट्रैफिक संकेतों का पालन करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें तथा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने इत्यादि नियमों से अवगत कराया गया। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा की भी शपथ भी दिलाई गई। तदोपरांत मिशन शक्ति के परिपेक्ष्य में नारी सुरक्षा के संबंध में महिला यात्रियों को सम्मान से बैठाकर गंतव्य तक छोड़ने को भी निर्देशित किया गया दौरान गोष्ठी PTO श्री वीरेन्द्र राजभर TSI श्री योगेश यादव और अन्य पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 06.11.2020 को श्री अजीत प्रताप सिंह चौकी प्रभारी शिवरामपुर द्वारा श्रीलेना बाबा इण्टरमीडिएट कॉलेज शिवरामपुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा धीरेन्द्र इण्टर कॉलेज राजापुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा इण्टर कॉलेज सपहा में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा आदर्श इण्टर कॉलेज में, एण्टी रोमियो टीम द्वारा पालेश्वरनाथ इण्टर कॉलेज पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भारतपुर, हरिहरपुर, भरतकूप मंदिर परिसर में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम मुक्का, ओवरी में डोर टू डोर जाकर, एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा पुरानी बीजार उतारखाना, मिशन रोड कर्वी, एम0सिंह बालिका इण्टर कॉलेज में एवं अन्य थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा ग्रामों, बाजारों, बस स्टैण्ड, प्रमुख चौराहों, में जाकर बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076,

पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया। विभिन्न थाना स्तर की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा आवारा रूप से घूम रहे संदिग्ध लड़कों से पूछताछ की गयी तथा हिदायत दी गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।